



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय- 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.

दूरभाष : (022) 24306321 / 24378866 फैक्स : 24313938 ई-मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 17 मई 2021

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमले एवं बंगाल में फैली अराजकता के लिये ममता जिम्मेदार : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भ्रष्टाचार के आरोपियों, टी.एम.सी. के दो मंत्री एवं एक विधायक, को पूछताछ के लिये ले जाने पर टी.एम.सी. गुंडों द्वारा सी.बी.आई. कार्यालय के बाहर केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमले की कड़ी निन्दा करती है और मानती है कि बंगाल में क्रानून व्यवस्था को हाशिये पर पहुंचाने और अराजकता को बढ़ावा देने में बंगाल की मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार है।

तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टी.एम.सी. के गुंडे सी.बी.आई. के कार्यालय के सामने लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाकर प्रदर्शन करने एकत्रित हुये वहाँ उपस्थित केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा रोकने पर उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला किया जो कि अत्यंत ही निंदनीय है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री सप्तर्षि सरकार ने कहा कि, “बंगाल में चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद न्याय एवं क्रानून व्यवस्था हाशिये पर पहुँच गयी हैं। अभी तक तो विपक्षी पार्टी और राजनैतिक लोगों को निशाना बनाया जा रहा था आज केंद्रीय सुरक्षा बल पर हमला करके टी.एम.सी. गुंडों ने राज्य सरकार के संरक्षण को जग ज़ाहिर कर दिया है।”

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा कि, “जिस राज्य में मुख्यमंत्री स्वयं महिलाओं के साथ हुये दुराचार, हत्या और शारीरिक शोषण की घटनाओं पर आँख मूँद कर बैठी रही आज भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाने के लिए स्वयं सी.बी.आई. दफ़्तर पहुँचकर अपने पार्टी के लोगों से केन्द्रीय सुरक्षा बल पर हमला करवा रही है।”

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री नीरज चौधरकर द्वारा जारी की गई है।)